

30 सितंबर, 2020 को समाप्त छमाही का गैरलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम



आपत्काले रक्षिष्यामि
GIC Re

सकल प्रीमियम

30.09.2020	30.09.2019
₹ 26,533 करोड़	₹ 30,272 करोड़

कुल परिसंपत्तियाँ

30.09.2020	30.09.2019
₹ 1,26,168 करोड़	₹ 1,26,081 करोड़

उचित मूल्य सहित नेट वर्थ

30.09.2020	30.09.2019
₹ 39,629 करोड़	₹ 47,263 करोड़

लाभ और हानि खाता (लाख रु. में)

विवरण	30.09.2020 को समाप्त छमाही के लिए	30.09.2019 को समाप्त छमाही के लिए
1 प्रचालन लाभ/(हानि)		
(क) अग्नि बीमा	(43,165)	(51,671)
(ख) मरीन बीमा	(31,754)	(1,147)
(ग) विविध बीमा	(14,900)	(10,988)
(घ) जीवन बीमा	7,600	(2,949)
2 निवेशों से आय		
(क) ब्याज, लाभांश और किराया-सकल	45,207	47,912
(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ	34,958	23,127
3 अन्य आय:		
फॉरेक्स लाभ/(हानि)	-	2,919
संपत्ति की बिक्री पर लाभ (निवल)	9	-
विविध प्राप्ति	71	148
कुल (ए)	(1,974)	7,351
4 संदिग्ध ऋण और निवेश के लिए प्रावधान	14,344	50,505
5 संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान/(रिटन ऑफ)	18,726	2,266
6 निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन	1,602	1,532
7 अन्य व्यय:		
विदेशी मुद्रा हानि/(लाभ)	3,147	-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर (लाभ)/(हानि) (निवल)	-	1
विविध बैलेंस रिटन ऑफ (निवल)	-	4
ब्याज और अन्य	-	-
निगमीय सामाजिक जिम्मेदारी व्यय	101	1,156
कुल (बी)	37,920	55,464
कर पूर्व लाभ	(39,894)	(48,113)
कराधान के लिए प्रावधान :		
वर्तमान कर	692	595
आस्थापित कर	(7,845)	(22)
कर पश्चात लाभ	(32,741)	(48,686)
विनियोजन		
(ए) पिछले वर्ष से अंग्रेषित शेष	2,24,359	4,03,033
(बी) अंतरिम लाभांश	-	-
(सी) अंतिम लाभांश	-	1,18,422
(डी) लाभांश संवितरण कर	-	24,343
(ई) सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	-
तुलन पत्र से अंग्रेनीत शेष राशि	1,91,618	2,11,582
बेसिक एंड डाइल्यूटेड इपीएस	(1.87)	(2.78)

नोट:

- यह पब्लिक डिस्कलोजर बीमाकर्ताओं द्वारा पब्लिक डिस्कलोजर के समय आइआरडीए के दि. 28 जनवरी, 2010 के परिपत्रक सं. आइआरडीए/एफएंडआइ/सीआइआर/एफएंडए/012/01/2010 के अनुपालन में किया गया।
- विश्लेषणात्मक अनुपात आइआरडीए की परिभाषा के अनुसार उनके दि. 5 अक्टूबर, 2012 के मुख्य परिपत्र तथा 3 जुलाई, 2013 के शुद्धिपत्र द्वारा निकाला गया है।
- उपर्युक्त वित्तीय परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित किये गए हैं तथा निदेशकों के मंडल द्वारा दि. 13 नवंबर 2020 को मुंबई में हुई उनकी बैठक में अनुमोदित किये गए हैं। निगम के संयुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन भी इसे लागू किया गया है।

मंडल के लिए और उनकी ओर से
हस्ताक्षर/-
देवेश श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 08646006

स्थान: मुंबई

दिनांक: 13 नवंबर, 2020



General Insurance Corporation of India

भारतीय साधारण बीमा निगम

“सुरक्षा”, 170, जमशेदजी टाटा रोड,
चर्चमेट, मुंबई-400020, भारत
दूरभाष (बोर्ड): +91 22 2285 7000
ई-मेल: info@gicindia.com
वेबसाइट: www.gicofindia.com

राजस्व खाते (लाख रु. में)

विवरण	30.09.2020 को समाप्त छमाही के लिए				30.09.2019 को समाप्त छमाही के लिए			
	अग्नि	विविध	मरीन	जीवन	अग्नि	विविध	मरीन	जीवन
1. अर्जित प्रीमियम (निवल)	6,37,419	15,28,870	95,278	53,751	5,14,758	22,59,408	56,764	33,889
2. निवेश की विक्री पर लाभ (निवल)	38,491	88,059	7,265	1,738	20,401	55,875	3,786	891
3. विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	(3,622)	(7,946)	(654)	(156)	3,065	6,886	480	112
4. ब्याज, लाभांश एवं किराया-सकल	49,777	1,13,878	9,396	2,248	42,264	1,15,755	7,844	1,846
कुल (ए)	7,22,065	17,22,861	1,11,285	57,581	5,80,488	24,37,924	68,874	36,738
1. उपगत दावे (निवल)	5,84,795	14,88,447	1,24,680	47,939	4,64,202	22,13,312	54,722	33,941
2. कमीशन (निवल)	1,76,438	2,41,757	17,852	765	1,62,902	2,18,772	14,679	497
3. बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रचालन व्यय	3,997	7,557	507	240	5,055	16,828	620	370
4. प्रीमियम न्यूनता	-	-	-	1,037	-	-	-	4,879
कुल (बी)	7,65,230	17,37,761	1,43,039	49,981	6,32,159	24,48,912	70,021	39,687
प्रचालन लाभ/(हानि)								
सी=(ए-बी)	(43,165)	(14,900)	(31,754)	7,600	(51,671)	(10,988)	(1,147)	(2,949)
विनियोजन								
शेयरधारकों के खाते में अंतरण	(43,165)	(14,900)	(31,754)	7,600	(51,671)	(10,988)	(1,147)	(2,949)
कुल (सी)	(43,165)	(14,900)	(31,754)	7,600	(51,671)	(10,988)	(1,147)	(2,949)

तुलन पत्र (लाख रु. में)

विवरण	30.09.2020 को समाप्त छमाही	30.09.2019 को समाप्त छमाही
निधियों के स्रोत		
शेयर पूंजी	87,720	87,720
रिजर्व एवं अधिशेष	20,76,373	20,49,506
शेयरधारकों की निधि	3,99,887	5,96,464
पालिसीधारकों की निधि	15,50,620	20,87,835
कुल	41,14,600	48,21,525
निधियों का उपयोग		
निवेश- शेयरधारक	16,44,552	17,72,660
निवेश- पालिसीधारक	60,50,903	59,43,419
ऋण	21,561	23,789
स्थायी परिसंपत्तियाँ	17,551	18,694
आस्थापित कर परिसंपत्ति	9,923	278
वर्तमान परिसंपत्तियाँ	-	-
नकद एवं बैंक शेष	16,92,373	13,40,021
अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियाँ	31,79,926	35,09,190
उप-जोड़ (ए)	48,72,299	48,49,211
वर्तमान दायित्व	67,13,872	63,30,786
प्रावधान	17,88,317	14,55,740
उप-जोड़ (बी)	85,02,189	77,86,526
निवल वर्तमान परिसंपत्तियाँ (सी) = (ए-बी)	(36,29,890)	(29,37,315)
विविध व्यय	-	-
कुल	41,14,600	48,21,525
आकस्मिक दायित्व	1,539,644	973,576

प्रमुख विश्लेषणात्मक अनुपात

क्र. सं.	विवरण	को समाप्त छमाही	
		30.09.2020	30.09.2019
1	सकल प्रीमियम वृद्धि दर	(12.35)	11.63
2	शेयरधारकों के निधि अनुपात का सकल प्रीमियम	131.90	148.30
3	शेयरधारकों की निधि की वृद्धि दर	(1.50)	(4.10)
4	निवल प्रतिधारण अनुपात	88.46	93.96
5	निवल कमीशन अनुपात	18.61	13.95
6	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम से प्रबंधन व्यय का अनुपात	0.46	0.76
7	संयुक्त अनुपात	116.13	111.30
8	निवल प्रीमियम से तकनीकी रिजर्वों का अनुपात:	332.40	251.30
9	बीमांकन शेष अनुपात	(16.75)	(11.09)
10	प्रचालन लाभ अनुपात	(3.50)	(2.30)
11	देयता अनुपात में नकद परिसंपत्तियां	28.39	26.85
12	निवल अर्जन अनुपात	(1.39)	(1.71)
13	नेटवर्थ पर रिटर्न	(3.25)	(4.77)
14	उपलब्ध साल्वेसी मार्जिन (एसएम) से आवश्यक साल्वेसी मार्जिन	1.63	1.60
15	एन.पी.ए. अनुपात		
	सकल एन.पी.ए. अनुपात	4.03	3.41
	निवल एन.पी.ए. अनुपात	0.31	0.35

ग्लोबल 2000
में से एक रूप में
फोर्ब्स 2019 सूची
द्वारा मान्यता प्राप्त:

- सर्वोत्तम प्रतिष्ठित कम्पनियाँ
- विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता
- ग्लोबल ग्रोथ चैंपियन

वर्ष 2020
का समुद्री
बीमाकर्ता
(समुद्री मानक
पुरस्कार)

टीमवर्क द्वारा संचालित प्रदर्शन

सीआयएन सं.: L67200MH1972GOI016133
आइआरडीए पंजीकरण सं.: 112